

पुलिस प्रैस नोट 7 दिसम्बर 2021

फरीदाबाद पुलिस में 183 (एसपीओ) विशेष पुलिस अधिकारियों की, दिनांक 10.12.2021 से 24.12.2021 तक भर्ती की जाएगी।

सेना एवं अर्धसैनिक बल के सेवानिवृत्त कर्मचारी, भंग की गई HISF बटालियन के हटाए गए कर्मचारी व 2004 में हरियाणा सशस्त्र बल के हटाए गए कर्मचारी को फरीदाबाद पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी के तौर पर भर्ती किया जाएगा। इच्छुक आवेदक 10 दिसंबर से 24 दिसंबर 2021 तक पुलिस आयुक्त कार्यालय में संबंधित आवश्यक दस्तावेज सहित करें संपर्क। चयनित उम्मीदवार को 18,000/-रु0 प्रतिमाह दिया जाएगा वेतन।

एसपीओ की भर्ती के लिए हरियाणा के किसी भी जिले का रिहायशी सेवानिवृत्त कर्मचारी आवेदन कर सकता है। इच्छुक आवेदक 24.12.2021 तक व्यक्तिगत रूप से पुलिस आयुक्त कार्यालय सै0 21सी फरीदाबाद में, सेना शाखा से संपर्क करें।

फरीदाबाद- पुलिस कमीशनरेट फरीदाबाद में पुलिस बल की बढ़ोतरी करने के लिये army and paramilitary forces से सेवानिवृत्त हुए ex service man को पुलिस आयुक्त कार्यालय में 10.12.2021 से 24.12.2021 तक पुलिस उपायुक्त मुख्यालय श्री नीतीश अग्रवाल, चेयरमैन भर्ती कमेटी की अध्यक्षता में भर्ती की जाएगी।

पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि भर्ती के इच्छुक सेवानिवृत्त अपने साथ पास-पोर्ट साईज के 4 फोटो, शिक्षा, सेवानिवृत्त से संबंधित सर्टिफिकेट, मूल प्रमाण पत्र व सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया गया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट इत्यादि दस्तावेज के साथ व्यक्तिगत रूप से पुलिस आयुक्त कार्यालय सै0 21सी फरीदाबाद में, सेना शाखा से संपर्क करें। इच्छुक उम्मीदवार अपने साथ उपरोक्त सभी दस्तावेजों की मूल प्रति भी साथ लेकर आयें।

चयन हेतु निम्नलिखित सेवा शर्तें लागू होगी।

1. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यह आवश्यक है उनकी आयु 25 से कम व 50 साल से अधिक ना हो और उन्हें अनुशासनहीनता या मैडीकल के आधार पर न हटाया गया हो। सेना में सेवा कम से कम 5 वर्ष तक की होनी चाहिए।
2. Ex service man कर्मचारी एक वर्ष की अवधि के लिए 18,000/- रुपये के मासिक मानदेय पर रखे जायेंगे। इस राशि को विशेष पुलिस अधिकारी की नकद न देकर उनके बैंक खाते में जमा किया जायेगा।
3. Ex service man को, उनके ग्रह पुलिस थानों में तैनात नहीं किया जायेगा, लेकिन यह ध्यान में रखा जायेगा कि उनकी तैनाती उनके नजदीकी पुलिस थानों में हो जो कि उनके निवास स्थान के निकट हो, में की जाए। यदपि जो इच्छुक होंगे उन्हें अन्य जिला में भी तैनात किया जा सकता है।

4. Ex service man को भर्ती के समय दो जोडा वर्दी, एक जोडा जूते और अन्य आवश्यक वर्दी से संबंधित वस्तुओं के लिए 3000 रुपये केवल एक बार दिए जाएंगे।

5. जब सरकारी दौरे पर होंगे तो उसके लिए 150 रुपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता टी.ए.डी.ए दिया जाएगा।

6. उन्हें आकस्मिक अवकाश जो हरियाणा पुलिस के सिपाही के लिए लागू है, प्रदान किया जाएगा। वह निम्नलिखित अनुग्रह राशी के लिए भी पात्र होंगे-

(क) ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर -10 लाख रुपये।

(ख) स्थाई विकलांगता पर -1 लाख से 3 लाख रूपयें तक।

(ग) गंभीर चोट पर -1 लाख रुपये तक।

7. Ex service man का भर्ती के समय कोई लिखित परीक्षा तथा शारीरिक मापतोल नहीं होगा।

8. राज्य सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

9. इन विशेष अधिकारियों को आपातकालीन स्थिति में थोड़े समय के लिए हरियाणा राज्य के किसी भी जिले में तैनात किया जा सकता है।


10. इन विशेष पुलिस अधिकारियों को 15 दिन का पुलिस ड्यूटीओं बारे में विशेष प्रशिक्षण पुलिस लाइन फरीदाबाद में दिया जाएगा ताकि इनको कानून व्यवस्था, गार्ड ड्यूटी, पैट्रोलिंग, यातायात, और पुलिस से संबंधित अन्य ड्यूटीओं पर तैनात किया जा सके।

11. चयन के लिए साक्षात्कार में आने के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता (टी.ए.डी.ए) नहीं दिया जाएगा।

पुलिस प्रवक्ता,
फरीदाबाद।

Performa to be filled up by the applicant for the post of Special Police Officers

Photo of the applicant



Name:

Father Name:

Category/Caste: (Gen/SC/BC A/BC

B/SBC/EBC) Education Qualification:

Correspondence Address:

Permanent Address:

Mobile No:

Police Station:

Date of Birth:

Date of Recruitment in Army:

Date of

Discharge/Retirement/Reason:

Whether

Dismissed/Discharge/Retired:

Medical Category at the time of Retirement:

Grade of Character Certificate at the time of Retirement:

Signature of Candidate

